



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1947 (श10)
(सं० पटना 1001) पटना, मंगलवार, 27 मई 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
24 मई 2025

सं० 11/न0वि0/निर्वा-02/2025-1477—चूँकि राज्य के 06 नगरपालिकाओं, यथा नगर पंचायत, कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) नगर पंचायत, खुशरूपुर एवं नौबतपुर (पटना) का कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा नगर पंचायत, बिक्रम (पटना) का कार्यकाल दिनांक 20.08.2025 को समाप्त हो रहा है।

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिका के लिये चुनाव कराना आवश्यक हो गया है; अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा छः नगर पंचायतों, यथा नगर पंचायत कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) नगर पंचायत, खुशरूपुर एवं नौबतपुर (पटना) तथा नगर पंचायत, बिक्रम (पटना) के पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु 28 जून, 2025 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सचिव।

The 24th May 2025

No. 11/Na. Vi./Nirva-02/2025-1477--Whereas, the tenure of the Six Nagar Panchayats i.e. Nagar Panchayat Kochas (Rohtas), Nagar Panchayat Mehshi & Pakridayal (E.Champaran), Nagar Panchayat Khushrupur & Naubatpur (Patna) are expired and the tenure of Nagar Panchayat Bikram will expire on dt. 20.08.2025.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-441 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Govt. of Bihar is hereby pleased to fix, **28th June, 2025** as the date for poll for election of the Ward Members, Dy. Chief Councilors & Chief Councilors

of Nagar Panchayat Kochas (Rohtas) Nagar Panchayat Mehsi & Pakridayal (E.Champaran), Nagar Panchayat Khushrupur, Naubatpur & Bikram (Patna) on the recommendation of the State Election Commission, Bihar and expect that voters will cast their vote on the fixed date.

**By order of Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary.**

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1001-571+500-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**